

IF (GEN) 1845

खाता सं./Account No.

सेवा में/To: प्रबंधक/वरिष्ठ प्रबंधक
केनरा बैंक/CANARA BANK,

निवासी भारतीयों के लिए खाता खोलने का फार्म

ACCOUNT OPENING FORM FOR NON RESIDENT INDIANS

नाम एवं पता/NAME & ADDRESS:

कृपया नीचे दिए गए ब्योरे के अनुसार एक खाता खोलें (नाम स्पष्ट एवं आद्यक्षरों को पूरा लिखें)

Please open an account as per details below (in capital letters & expanded initials)

प्रथम नाम मध्य नाम अंतिम नाम
FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME

1. पहला आवेदक/First Applicant
2. दूसरा आवेदक/Second Applicant
3. तीसरा आवेदक/Third Applicant
4. चौथा आवेदक/Fourth Applicant

विदेश का पता/ Overseas address

फोन सं Phone No. (आई.एस.डी. कूट के साथ/with ISD Code) _____

ई-मेल/E MAIL _____ फैक्स सं./FAX NO. _____

भारतीय पता/Indian Address _____

फोन सं./Phone No. _____

अन्य ब्योरा/Other Details

कृपया उस पते पर ✓ निशान लगाएं जहाँ डाक जानी चाहिए (यदि आप अपना डाक को रोके रखना चाहते हैं, तो बॉक्स पर
✓ लगाएं

Please Tick ✓ Address to which mail to be sent. If you want your mail held, please tick the
box ✓

जन्म तिथि (अवयस्क के मामले में) / Date of Birth (in case of minor) _____

Stamp size
Photo of
First
Applicant
Latest photo

Stamp size
Photo of
Second
Applicant
Latest photo

Stamp size
Photo of
Third
Applicant
Latest photo

Stamp size
Photo of
Fourth
Applicant
Latest photo

खोले जाने वाले खाते का प्रकार /TYPE OF ACCOUNT TO BE OPENED

कृपया बॉक्स(बॉक्सों) पर ✓ लगाएं Please ✓ Tick box(es)	मुद्रा व राशि / Currency and Amt.	अवधि / Period
1. विदेशी मुद्रा (अनिवासी) सावधि जमा खाता (बैंक की योजना) - साधारण ब्याज (वि.मु.ट.[बैंक] सा.जमा) / Foreign Currency (Non Resident) Term Deposit Account (Bank Scheme) Simple Interest (FCNR(B) FDR)		
2. विदेशी मुद्रा (अनिवासी) सावधि जमा खाता (बैंक की योजना) - चक्रवृद्धि ब्याज - छमाही अंतरालों पर होगा (वि.मु.ट.[बैंक] कामधेनु जमा) / Foreign Currency (Non Resident) Term Deposit Account (Banks Scheme)-Compounded interest half yearly rests (FCNR-B-KDR)		
3. अनिवासी (बाह्य) सावधि जमा - साधारण ब्याज रु. में (अनि. बाह्य - सा.जमा) / Non Resident (External) Term Deposit Simple Interest in Rs. (NRE-FDR)		
4. अनिवासी बाह्य (पुनर्निवेश योजना) जमा - चक्रवृद्धि ब्याज - तिमाही रु. में (अनि. बाह्य-का जमा) Non Resident External (Re-investment Plan) Deposit - Compound interest- Quarterly in Rs. (NRE-KDR)		
5. अनिवासी बाह्य आवर्ती जमा रु. में (अनि. बाह्य-का जमा)/ Non-Resident (External) Recurring Depositin Rs. (NRE-RD)		
6. अनिवासी (सामान्य) बचत बैंक खाता / चालू खाता / सावधि जमा खाता (सावधि जमा) (केवल साधारण ब्याज रुपया में (एनटारटो) - ब.बैं./चा.खा./सा.जमा) / Non Resident (Ordinary) Savings Bank Account / Current Account / Term Deposit Account (FDR) (Simple Interest Only) in Rs. (NRO SB/NRO CA/NRO-FDR)		
7. अनिवासी (बाह्य) बचत बैंक खाता / चालू खाता रु. में (अनिवासी चालू खाता) /Non Resident (External) Savings Bank A/c/Current A/c. in Rs. (NRE- CA)		

संरचना / Constitution

व्यक्तिगत / Individual (एकल/संयुक्त/Single/Joint)	स्वामित्व/Proprietorship	स्वामित्व फर्म/Partnership Firm
मिश्रित पूँजी कंपनी/Joint Stock Company	अन्य/Others.. .. .(कृपया स्पष्ट करें/please specify)	

(जिन मामलों में स्वामित्व/हिताधिकार प्रत्यक्षतः अनिवासी भारतीयों के पास हों उनमें, कृपया फार्म ओ.ए.सी. में तथा जिनमें वे अप्रत्यक्षतः उनके पास हों, उनमें फार्म ओ.ए.सी. 1 में समुद्रपारीय लेखा परीक्षक सनदी लेखाकार / प्रमाणित लोक लेखाकार प्रमाण-पत्र सहित मिश्रित पूँजी कंपनियों के मामले में संस्था जापन तथा संस्था अंतर्नियमावली एवं निगमन प्रमाण-पत्र और साझेदारी फार्मों के मामले में साझेदारी विलेख संलग्न करने हेतु नोट करें । /

Please note to enclose memorandum of association/Articles of Association and Certificate of incorporation in case of Joint stock companies and Partnership deed for Partnership firms along with overseas auditor/chartered accountant/certified Public Accountant Certificate in FORM OAC where ownership/beneficial interest is directly held by NRI and form OAC1 where it is held indirectly).

पारपत्र का ब्योरा / PASSPORT DETAILS

	पासपोर्ट सं. Passport No.	जारी करने की तिथि व स्थान Date & Place of Issue	राष्ट्रीयता/ Nationality	वर्तमान व्यवसाय Present Occupation
पहला आवेदक/ First Applicant				
दूसरा आवेदक / Second Applicant				
तीसरा आवेदक / Third Applicant				

परिचालन विधि / MODE OF OPERATION

1. एकल / Single
2. दोनों में से उत्तरजीवी / Either or Survivor
3. पूर्ववर्ती या उत्तरजीवी / Former or Survivor
4. उत्तरवर्ती या हम दोनों में से उत्तरजीवी / Latter or Survivor
5. दोनों या हमसे उत्तरजीवी / Both or Survivor of us
6. _____
(कृपया स्पष्ट करें / Please specify)

विप्रेषण का ब्योरा / DETAILS OF REMITTANCE

1. माँग ड्राफ्ट सं. _____ दिनांक _____ राशि _____ (संलग्न)
Demand Draft No. _____ Dt. _____ for
_____ amount (enclosed)
2. डाक-अंतरण / तार अंतरण सं. _____ दिनांक _____
के लिए
Mail Transfer/Telegraphic Transfer No. _____ Dt. _____ for

3. विप्रेषक बैंक का नाम तथा पता / Name and Address of the Remitting bank

ब्याज के भुगतान / नवीकरण आदि संबंधी अनुदेश /INSTRUCTIONS REGARDING INTEREST
PAYMENT/RENEWAL ETC

1. कृपया सावधि जमा रसीद सुरक्षित अभिरक्षा में रखे तथा अवधि पूरी होने पर उसी अवधि के लिए नवीकरण करें
/Please keep Term Deposit Receipt in Safe Custody and renew for similar period on
maturity
2. कृपया ब्याज मुझे ड्राफ्ट से भेजें / Please remit interest by Draft to me
3. ब्याज आपके यहाँ रहने वाला मेरे बचत बैंक / चालू खाता सं. में जमा करें /Credit Interest to my
SB/CA No. with you _____
4. _____
(कृपया अन्य अनुदेश स्पष्ट करें/Please specify other instruction)

@ए.टी.एम./डेबिट कार्ड ATM/DEBIT CARD:

Please issue me/us Debit Card (Name to be embossed on Card)

पहला आवेदक /First Applicant

दूसरा आवेदक /Second Applicant

तीसरा आवेदक /Third Applicant

चौथा आवेदक /Fourth Applicant

माहवार शेषअलर्ट BALANCE ALERT ON MONTHLY BASIS	लागू नहीं NOT APPLICABLE		एस एम एस SMS	ई-मेल E MAIL	दोनों BOTH
खाताओं में टीओडी भेजने के लिए / TOD IN THE A/Cs.	लागू नहीं NOT APPLICABLE		एस एम एस SMS	ई-मेल E MAIL	दोनों BOTH
अलर्ट भेजने के लिए ई-मेल आई.डी. E MAIL ID TO WHICH ALERT TO BE SENT					

घोषणाएँ /DECLARATIONS:

1. मैं / हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ / करते हैं कि मैं / हम भारतीय मूल का / के अनिवासी भारतीय मूल का / के अनिवासी भारतीय हूँ / हैं कि यहाँ दिया गया कोई विवरण / घोषणा तात्त्विक रूप से ठीक नहीं पाया जाता / जाती है तो आप मेरे / हमारे द्वारा जमा की गई राशि पर कोई ब्याज अदा करने के लिए बाध्य नहीं होंगे ।

1. I/We hereby declare that I am/we are Non Resident Indian/s of Indian origin. I/We understand that the above account/s will be opened on the basis of the statements/declarations made by me/us and I/we also agree that if any of the statements/declarations made herein is found to be not correct in material particulars you are not bound to pay any interest on the deposit made by me/us.

2. मैं / हम उसके लिए सहमत हूँ / हैं कि जमाराशि / राशियों की अवधि पूरी होने की तिथि / तिथियों के बाद मैं / हम उन पर किसी ब्याज का दावा नहीं करूंगा / करेंगे । मैं / हम विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना / अनिवासी (बाह्य) लेखा / अनिवासी (साधारण) लेखा योजनओं के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ / हैं । मैं / हम भारत में स्थायी निवास के लिए वापस आने पर तुरंत आपको अपने लौटने की सूचना देने का वचन देता हूँ / देते हैं ।

I/We agree that no claim will be made by me/us for any interest on the deposit/s for any period after the date/s of maturity of the deposit/s. I/we agree to abide by the provisions of Foreign Currency (Non Resident) Account (Banks) Scheme/Non Resident (External) Account/Non Resident (Ordinary) Account Schemes. I/We hereby undertake to intimate you about my/our return to India for permanent residence immediately on arrival.

3. मैं / हम इसके लिए सहमत हूँ / हैं कि मेरे / हमारे अनुरोध पर समय पूर्व राशि निकालने की अनुमति दी जाती है तो जमाराशि पर ब्याज इस संबंध में बैंक द्वारा निर्धारित प्रचलित शर्तों के आधार पर अनुमत किया जाएगा ।

I/We agree that if the premature withdrawal is permitted of my/our request, the payment of interest on the deposit may be allowed in accordance with the prevailing stipulations laid down by the Bank in this regard.

4. मैं / हम आपसे अनुरोध तथा आपको प्राधिकृत करता हूँ / करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा उक्त खाते में काटे गए सभी चेक या अन्य आदेश स्वीकारें तथा मैं / हम आपसे ऐसे सभी चेक उक्त खाते में नामे डालने का अनुरोध करता हूँ / करते हैं भले ही ऐसे खाते में उस समय रकम जमा हों / जमा रकम से अधिक रकम के चेक दिए गए हों ।

I/We request and authorise you to honour all cheques or other orders drawn by me/us on the said account and I/we request you to debit such cheques to the said account whether such account be for the time being in credit/overdrawn.

5. मेरे / हमारे द्वारा समय-समय पर वसूली या परक्रामण के लिए जमा किए चेकों के मामले में, यदि चेक ऐसे स्थानों पर देय हो, जहाँ आपकी शाखा नहीं है, मैं / हम उन्हें पूर्णतः मेरी / हमारी जिम्मेदारी तथा जोखिम पर आप से उन्हें किसी अन्य बैंक के माध्यम से वसूल करने का अनुरोध करता हूँ / करते हैं । यदि ऐसे चेक / ड्राफ्ट आप द्वारा परक्रामित किए जाते हैं तथा वे मार्ग में या अन्यथा खो जाते हैं तो मैं / हम मांगे जाने पर ऐसे ड्राफ्टों, चेकों की पूर्ण राशि की आपको प्रतिपूर्ति के लिए सहमत हूँ / हैं ।

In the matter of cheques lodged by me/us with you from time to time for collection or negotiation where the cheques payable at places where you have not established your branches, I /We request you to collect them through any bank entirely at my / our risk and responsibility. Where such drafts/cheques are negotiated by you and the same are lost in transit or otherwise, I/We hereby agree to reimburse to you the full amount of such drafts, cheques on demand

6. मैं / हम ऐसे खाते के प्रचालन के लिए फिलहाल लागू बैंक के नियमों का अनुपालन करने तथा उससे आबद्ध होने के लिए सहमत हूँ / हैं ।

I/We agree to comply with and to be bound by the Banks rules for the time being in force for the conduct of such accounts. I/We declare that the rules in force have been read by me/us.

7. मैं / हम बैंक को इसके लिए प्राधिकृत करता हूँ / करते हैं कि यदि अवधि पूरी होने से पहले बैंक को मेरे / हमारे कोई प्रतिकूल अनुदेश प्राप्त न हों तो जमाराशि को बैंक उतनी ही अवधि के लिए स्वतः नवीकृत कर दें । मैं / हम यह समझता हूँ / समझते हैं कि नवीकरण उस समय लागू भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

I/We authorise the bank to automatically renew the deposit on the due date for an identical period unless the instructions to the contrary from me/us is received by the bank before maturity, I /we understand that the renewal will be in accordance with the provisions of the Reserve bank of India guidelines/directives in force at the time of renewal.

8. मैं / हम यह भी समझता हूँ / समझते हैं कि नवीकृत जमाराशि पर देय ब्याज की दर अवधि पूरी होने के समय या नवीकरण की तिथि को प्रचलित कर, जो भी कम हो, नवीकरण की अवधि के लिए लागू संसूचित दर होगी तथा नवीकरण जमा रसीद पर उसे मेरे / हमारे द्वारा नवीकरण / भुगतान के लिए अवधि पूरी होने की तिथि को या बाद में प्रस्तुत किए जाने पर नोट किया जाएगा । मैं / हम आगे यह भी समझता हूँ / समझते हैं कि अतिदेय जमाराशि या उसके किसी हिस्से का नवीकरण अवधि पूरी होने की तिथि से किया जा सकता है बशर्ते कि अतिदेय अवधि 14 दिन से अधिक न हो ।

I/We further understand that the rate of interest applicable on the deposit renewed shall be at the appropriate rate of interest for the period of renewal as prevailing on the date of maturity or on the date of renewal whichever is lower and that the renewal will be noted on the deposit receipt on my/our presenting the same on the maturity date or later for renewal/payment. I/we also understand that the overdue deposit or a portion thereof can be renewed from date of maturity provided the overdue period does not exceed 14 days

9. मैं / हम एतद्द्वारा घोषित करता हूँ / करते हैं कि हमारे द्वारा समय-समय पर बैंक को सौंपे जाने वाले सभी विदेशी विनिमय लेनदेन, उन लेनदेनों की पूर्ति के समय वि.वि.प्र.ट. (फेमा) 1999 के प्रचलित प्रावधानों के सख्त अनुपालन में होंगे।

I/We hereby declare that all forex transactions, as may be entrusted by us to the Bank from time to time will be in strict conformity with the prevailing provisions of FEMA 1999 at the time the transactions are put through.

10. मैं/हम समझता हूँ/हैं कि केनरा बैंक डेबिट कार्ड का उपयोग विनिमय नियंत्रण विनियमन के अनुसार सख्ती कया जाएगा और समझा है कि इसके अनुपालन में यदि चूक होता है तो, मैं फेमा दिशानिर्देशों जो समय समय पर जारी किये जाते हैं उसके लिए जिम्मेदार होगा और समझा है कि भारतीय रिजर्व बैंक या केनरा बैंक के कहने पर अंतर्राष्ट्रीय कार्ड सुविधा से वंचित रहूँगा/रहेंगे।

I/We undertake to utilize the Canara Bank Debit Card strictly in accordance with the exchange control regulations and understand that in the event of my failure to do so, I would be liable for action under FEMA guidelines issued from time to time and will also be debarred from International Card facility at the instance of Reserve Bank of India or Canara Bank

11. मैं घोषणा करता हूँ कि मैं / हमने दस्तावेज जिसमें मानदंड और शर्तें हैं और केनरा बैंक के वेब साइट WWW.CANARABANK.CO.IN में केनरा बैंक का इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के नियंत्रण अदावक को पढा और समझा है। आगे, मैं इसके लिए भी सहमत हूँ कि इंटरनेट, मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से यूजर आई डी और पासवर्ड से उपर्युक्त खाते में जो अनुरोध व्यक्त किये गये हैं वे कानूनन मेरे पर बाध्य हैं और मैं गोपनीयता और इंटरनेट मोबाइल/ई मेल द्वारा मुझे दी गई सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है। अन्य संयुक्त धारकों से उपर्युक्त संयुक्त खाताओं को देखने/पूछताछ करने/परिचालित करने हेतु आज्ञा पत्र मेरे पास है।

I declare that I/we have read and understood the document containing the Terms and Conditions and Disclaimer governing Canara Bank's Internet and Mobile Banking Services as provided in the Bank's Internet Banking Website - www.canarabank.in and I/we accept the same. Further, I also agree that the transactions and requests executed in the above mentioned accounts through Internet, Mobile Banking under my user id and password will be legally binding on me and I am responsible for maintenance of secrecy and confidentiality of the information passed on to me by the Bank through Internet/Mobile/E mail. I have the mandate from the other Joint Holders to view/enquire/operate the Joint accounts mentioned above

अनुबंध के अनुसार नामांकन अपेक्षित / NOMINATION AS PER ANNEXURE

नामांकन आवश्यकता नहीं / NOMINATION NOT REQUIRED

पहले आवेदक के हस्ताक्षर / Signature of 1st Applicant

दूसरे आवेदक के हस्ताक्षर / Signature of 2nd Applicant

तीसरे आवेदक के हस्ताक्षर / Signature of 3rd Applicant

चौथे आवेदक के हस्ताक्षर / Signature of 4th Applicant

स्थान / Place:

दिनांक / Date:

परिचय / INTRODUCTION:

मैं आवेदक को (व्यक्तिगत रूप से) ----- वर्षों की अवधि तक के लिए जानता हूँ और आवेदन में उल्लेखित उनका पता / व्यवसाय की पुष्टि करता हूँ। मैं सिफारिश करता हूँ कि बैंक इस खाते को खोलने पर विचार कर सकता है। I

KNOW THE APPLICANT (PERSONALLY FOR A PERIOD OF _____ YEARS & CONFIRM HIS/HER/THEIR ADDRESS/OCCUPATION STATED IN THE APPLICATION. I RECOMMEND THAT THE BANK MAY CONSIDER TO OPEN THE ACCOUNT

नाम / NAME MR/MRS/MS _____

खाता सं / ACCOUNT NO. _____

पता / ADDRESS _____

पिन कूट / PINCODE _____

परिचयकर्ता के हस्ताक्षर / SIGNATURE OF INTRODUCER

हस्ताक्षरों/परिचयों का सत्यापन/VERIFICATION OF SIGNATURES/ INTRODUCTIONS

हस्ताक्षर किसी बैंक / भारतीय दूतावास / उच्चायोग / कांसुलेट / परिचायक (के मामले में खाता सं. (_____))

Authentication of Signature to be made by a Bank / Indian Embassy / High Commission / Consulate / Introducers A/c No _____

शाखा का नाम /Name of the Branch

उपरोक्त हस्ताक्षर सत्यापित / Above signature verified

सत्यापन करनेवाले व्यक्ति का नाम / हस्ताक्षर और रबड़ की मुहर तथा / मुद्रा एवं पता Name/Signature of person verifying with rubber stamp and/or Seal & address

स्वीकृत दर /Accepted at _____%

प्रतिहस्ताक्षर / Countersigned

कृते केनरा बैंक / For Canara Bank

पर्यवेक्षक SUPERVISOR/ प्रबंधक/MANAGER

अनुबंध / ANNEXURE

1. नामांकन फॉर्म डी.ए. 1 /NOMINATION FORM DA 1

(केवल तभी भरा जाए जब यह सुविधा जमाकर्ता द्वारा अपेक्षित हो / NOMINATION TO BE FILLED IN ONLY IF THE FACILITY IS REQUIRED BY THE DEPOSITOR)

बैंक जमा राशियों के मामले में बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 45 जेडए. तथा बैंकिंग कंपनी (नामांकन) नियम 1985 के नियम 2(1) के अंतर्गत नामांकन

Nomination under Sec. 45 ZA of the Banking Regulation Act 1949 and rule 2(1) of the Banking Companies (Nomination) rule 1985 in respect of Bank Deposits.

I/We _____

(नाम तथा पता /पते/Name/s and addresses/es)

मेरे / हमारे / नाबालिग की मृत्यु पर निम्नलिखित को खाते में जमा राशि प्राप्त करने हेतु नामित करता हूँ / करते हैं, जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है, को वह राशि केनरा बैंक / _____ शाखा द्वारा वापस की जाए।

Nominate the following person to whom in the event of my/our/minors death the amount of deposit in the account, particulars whereof are given below, may be returned by CANARA BANK _____

जमा राशि / DEPOSIT

जमा राशि का स्वरूप Nature Of Deposit	विश्लेषक संख्या Distinguishing Number	अतिरिक्त ब्योरा, यदि कोई हो तो Additional Details,Any

नामिती / NOMINEE

नाम एवं पता Name & Address	जमाकर्ता से रिश्ता, यदि कोई हो तो Relationship With Depositor, If Any	आयु Age	यदि नामिती नाबालिग हो तो उसकी जन्म तिथि If Nominee is Minor, his date of birth

*चूँकि नामिती अभी नाबालिग है, मैं / हम As the nominee is minor on this date, I/We appoint _____

(नाम, पता एवं आयु / Name, address and age)

को नामिती के नाबालिग होने की अवधि के दौरान मेरी / हमारी नाबालिग की मृत्यु होने पर खाते की रकम को नाबालिग की ओर से प्राप्त करने हेतु नामित करते हैं। मैं यह भी नोट करता हूँ कि निधियों का इन खातों से अनिवासी नामिती को प्रत्यावर्तन भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति / विदेशी मुद्रा विनियमों के अधीन होगा /

to receive the amount of the deposit in the account, on behalf of the nominee, in the event of my/our/minors death, during the minority of the nominee. I have also noted that repatriation of funds in these accounts to Non Resident Nominees is subject to RBI approval/Foreign Exchange Regulations

जमाकर्ता/ओं के हस्ताक्षर
Signature(s) of Depositor(s)

साक्षी का नाम, हस्ताक्षर तथा पता **
Name, Signature & Address of Witness**

स्थान / Place _____
दिनांक / Date _____

जहाँ राशि नाबालिग के नाम पर जमा की गई हो, वहाँ नाबालिग के पक्ष में कानूनी तौर पर अनुमत व्यक्ति ही नामांकन पर हस्ताक्षर कर सकता है

Where deposit is made in the name of minor, the nomination should be signed by a person lawfully entitled to act on behalf of the minor

नामांकन स्वीकृत एवं पंजीकृत किया गया / Nomination accepted and Registered

पंजीकरण सं / Vide Regn. No _____ dated _____

कृते केनरा बैंक / For CANARA BANK

पर्यवेक्षक / Supervisor

प्रबंधक / Manager

* यदि नामिती नाबालिग न हो, तो काट दें /Strike out if nominee is not a minor

** बायें हाथ के अंगूठे का निशान दो साक्षियों द्वारा साक्ष्यांकित किया जाये / LTI to be attested by 2 witnesses

//FORM-NRE opening form//